

**Bachelor's Preparatory Programme (B.P.P.)**  
**(For Non 10+2)**  
**Term-End Examination**  
**February, 2021**

**PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN COMMERCE**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

**स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम (बी.पी.पी.)**  
**(बिना 10+2)**  
**सत्रांत परीक्षा**  
**फरवरी, 2021**

**पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम**

*समय : 2 घण्टे*

*अधिकतम अंक : 50*

**General Instructions :**

**Preparatory Course in Commerce (PCO-01)**

**Questions 1 – 50**

- (i) *This is an objective type question paper. Options for the correct answer must be marked only in OMR sheet.*
- (ii) *All questions are **compulsory**.*
- (iii) *The question paper consists of **50** questions, each of which carries **one** mark.*
- (iv) *Each question has four alternatives, one of which is correct. Write the Sl. No. of your correct alternative / answer below the corresponding question number in the OMR sheet and then mark the rectangle for the same number in that column. If you find that none of the given alternatives is correct then write 0 and mark in column 0.*
- (v) *Do not waste time in reading the whole question paper. Go on solving questions one by one. You may come back to the left out questions, if you have time at the end.*

- (i) यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र है । प्रश्नों के सही विकल्प केवल OMR शीट में लिखिए ।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में 50 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है ।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है । ओ.एम.आर. शीट में निर्देशानुसार सही विकल्प / उत्तर का क्रमांक संगत प्रश्न संख्या के नीचे लिखें और फिर उसी क्रमांक के आयत पर उसी कॉलम में चिह्न लगाएँ । अगर आप पाएँ कि कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 0 लिखें और कॉलम 0 में चिह्न लगाएँ ।
- (v) पूरे प्रश्न-पत्र को पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए । एक के बाद एक प्रश्न को करते जाइए । यदि बाद में समय रहे, तो बचे हुए प्रश्नों को दुबारा देखा जा सकता है ।

1. Which of the following is an external user of financial statements ?
  - (1) Board of Directors
  - (2) Managers
  - (3) Employees
  - (4) Government
  
2. Which of the following is **not** a business transaction ?
  - (1) Purchase of goods for resale amounted to ₹ 20,000
  - (2) Purchased a laptop for personal use
  - (3) Paid rent for office premises ₹ 4,000
  - (4) Paid salaries and wages amounting to ₹ 40,000
  
3. Purchase of goods on cash is recorded in
  - (1) Purchase Book
  - (2) Purchase Return Book
  - (3) Cash Book
  - (4) Journal
  
4. Bank overdraft is a
  - (1) Short term liability
  - (2) Long term liability
  - (3) Contingent liability
  - (4) Mid-term liability
  
5. According to the cost concept
  - (1) assets are recorded at the value paid for acquiring them
  - (2) assets are recorded by estimating the market value at the time of purchase
  - (3) assets are recorded at lower of cost or market value
  - (4) None of the above
  
6. Valuation of stock at lower of cost or net realisation value is an example of
  - (1) Consistency Convention
  - (2) Conservatism Convention
  - (3) Realisation Concept
  - (4) Matching Concept

1. निम्नलिखित में से कौन-सा वित्तीय विवरणों का बाह्य उपयोगकर्ता है ?
  - (1) निदेशक मंडल
  - (2) प्रबंधक
  - (3) कर्मचारी
  - (4) सरकार
  
2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यावसायिक लेनदेन *नहीं* है ?
  - (1) पुनर्विक्रय के लिए ₹ 20,000 के माल का क्रय
  - (2) व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लैपटॉप (Laptop) खरीदा
  - (3) ₹ 4,000 कार्यालय भवन का किराया दिया
  - (4) ₹ 40,000 वेतन एवं मज़दूरी के भुगतान किए
  
3. माल का नकद क्रय रिकॉर्ड किया जाता है
  - (1) क्रय बही में
  - (2) क्रय वापसी बही में
  - (3) रोकड़ बही में
  - (4) जर्नल में
  
4. बैंक ओवरड्राफ्ट है एक
  - (1) अल्पकालिक देयता
  - (2) दीर्घकालीन देयता
  - (3) प्रासंगिक देयता
  - (4) मध्यावधि देयता
  
5. लागत संकल्पना के अनुसार
  - (1) परिसंपत्तियों को उन्हें प्राप्त करने के लिए दी गई राशि पर रिकॉर्ड किया जाता है
  - (2) परिसंपत्तियों को उन्हें क्रय करने के समय के अनुमानित बाज़ार मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है
  - (3) परिसंपत्तियों को उनके बाज़ार मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, पर रिकॉर्ड किया जाता है
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
  
6. स्टॉक को उसकी लागत अथवा निवल प्राप्ति मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन करना एक उदाहरण है
  - (1) एकरूपता का कन्वेंशन
  - (2) अनुदारवाद का कन्वेंशन
  - (3) वसूली की संकल्पना
  - (4) मिलान की संकल्पना

7. Abram commenced business on 1<sup>st</sup> April, 2017 with a capital of ₹ 3,00,000. On 31<sup>st</sup> March, 2018, his assets were worth ₹ 4,00,000 and Liabilities ₹ 25,000. Find out his closing capital.
- (1) ₹ 3,75,000
  - (2) ₹ 1,00,000
  - (3) ₹ 4,25,000
  - (4) None of the above
8. Business transactions are recorded
- (1) In chronological order
  - (2) Weekly
  - (3) At the end of the month
  - (4) None of the above
9. Real accounts are related to
- (1) Assets
  - (2) Expense
  - (3) Income
  - (4) Liabilities
10. Total of Sales Return Book is recorded in
- (1) Sales Return Account — debit
  - (2) Sales Return Account — credit
  - (3) Sales Account — debit
  - (4) Sales Account — credit
11. Bank Reconciliation Statement is prepared by matching
- (1) Entries in Passbook with entries in bank column of Cash Book
  - (2) Entries in Passbook with entries in cash column of Cash Book
  - (3) Entries in Passbook with entries in bank column and cash column of Cash Book
  - (4) None of the above
12. A debtor account shows a \_\_\_\_\_ balance.
- (1) Credit
  - (2) Debit
  - (3) Debit or credit
  - (4) None of the above

7. अबराम ने ₹ 3,00,000 की पूँजी के साथ 1 अप्रैल, 2017 को व्यवसाय प्रारम्भ किया। 31 मार्च, 2018 को उसकी परिसंपत्तियाँ ₹ 4,00,000 की तथा देयताएँ ₹ 25,000 की थीं। उसकी अंतिम पूँजी (Closing capital) ज्ञात कीजिए।
- (1) ₹ 3,75,000
  - (2) ₹ 1,00,000
  - (3) ₹ 4,25,000
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
8. व्यावसायिक लेनदेन रिकॉर्ड किए जाते हैं
- (1) कालक्रम में
  - (2) साप्ताहिक रूप में
  - (3) माह के अंत में
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
9. वास्तविक खाते संबंधित होते हैं
- (1) परिसंपत्तियों से
  - (2) व्ययों से
  - (3) आय से
  - (4) देयताओं से
10. विक्रय वापसी बही का योग रिकॉर्ड किया जाता है
- (1) विक्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में
  - (2) विक्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में
  - (3) विक्रय खाते के डेबिट पक्ष में
  - (4) विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में
11. बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है मिलान कर के
- (1) पासबुक में दी गई प्रविष्टियों का रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दी गई प्रविष्टियों के साथ
  - (2) पासबुक में दी गई प्रविष्टियों का रोकड़ बही के रोकड़ कॉलम में दी गई प्रविष्टियों के साथ
  - (3) पासबुक में दी गई प्रविष्टियों का रोकड़ बही के बैंक कॉलम एवं रोकड़ कॉलम में दी गई प्रविष्टियों के साथ
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
12. एक देनदार का खाता दर्शाता है
- (1) क्रेडिट शेष
  - (2) डेबिट शेष
  - (3) डेबिट अथवा क्रेडिट शेष
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 13.** Depreciation is a process of
- (1) Valuation of asset
  - (2) Allocation of cost
  - (3) Both of valuation of asset and allocation of cost
  - (4) None of the above
- 14.** Three days are added for ascertaining the date of maturity. These are known as days of
- (1) Maturity
  - (2) Grace
  - (3) Payment
  - (4) None of the above
- 15.** Goods damaged should be credited to
- (1) Trading Account
  - (2) Goods Damaged Account
  - (3) Sales Account
  - (4) Profit and Loss Account
- 16.** Purchase of office equipment worth ₹ 2,200 has been debited to the General Expenses Account. It is
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Error of Omission | (2) Error of Commission |
| (3) A clerical error  | (4) Error of Principle  |
- 17.** Machinery owned by a firm should be classified as
- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (1) Fixed Assets  | (2) Current Assets    |
| (3) Liquid Assets | (4) None of the above |
- 18.** Return Outwards appearing in the Trial Balance is deducted from
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (1) Purchases       | (2) Sales             |
| (3) Return Outwards | (4) None of the above |
- 19.** Prepaid insurance is shown as
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| (1) An asset   | (2) A liability |
| (3) An expense | (4) An income   |



- 13.** मूल्यहास एक प्रक्रिया है
- (1) परिसंपत्ति के मूल्यांकन की
  - (2) लागत नियतन की
  - (3) परिसंपत्ति के मूल्यांकन एवं लागत नियतन दोनों की
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 14.** परिपक्वता की तिथि ज्ञात करने के लिए तीन दिन जोड़े जाते हैं। इन्हें कहा जाता है
- (1) परिपक्वता के दिन
  - (2) रियायत के दिन
  - (3) भुगतान के दिन
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 15.** माल की हानि को क्रेडिट किया जाना चाहिए
- (1) व्यापार खाते में
  - (2) माल हानि खाते में
  - (3) विक्रय खाते में
  - (4) लाभ-हानि खाते में
- 16.** कार्यालय उपस्कर का ₹ 2,200 का क्रय सामान्य व्यय खाते को डेबिट किया गया। यह है
- (1) लोप अशुद्धि
  - (2) लेखाकार्य की अशुद्धि
  - (3) लेखन (clerical) अशुद्धि
  - (4) सैद्धांतिक अशुद्धि
- 17.** एक फर्म के स्वामित्व वाली मशीनरी वर्गीकृत की जानी चाहिए
- (1) स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में
  - (2) चालू परिसंपत्तियों के रूप में
  - (3) तरल परिसंपत्तियों के रूप में
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 18.** तलपट में दी गई निर्गत वापसी की राशि घटाई जाती है
- (1) क्रय में से
  - (2) विक्रय में से
  - (3) निर्गत वापसी में से
  - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 19.** पूर्वदत्त बीमा दिखाया जाता है
- (1) एक परिसंपत्ति के रूप में
  - (2) एक देयता के रूप में
  - (3) एक व्यय के रूप में
  - (4) एक आय के रूप में

- 20.** A bill of exchange has \_\_\_\_\_ parties.
- (1) Two
  - (2) Three
  - (3) Four
  - (4) Five
- 21.** Double entry system of book-keeping is a system of
- (1) Complete records
  - (2) Reliable records
  - (3) Providing true financial position
  - (4) All of the above
- 22.** A donation received for special purpose is to be taken as
- (1) Capital expenditure
  - (2) Revenue expenditure
  - (3) Capital receipts
  - (4) Revenue receipts
- 23.** Which of the following is a nominal account ?
- (1) Rameshwar Account
  - (2) Sales Account
  - (3) Machinery Account
  - (4) Outstanding Rent Account
- 24.** A basis of accounting according to which accounts are prepared for cash and credit transactions is called
- (1) Cash basis
  - (2) Accrual basis
  - (3) Mixed basis
  - (4) Dual basis
- 25.** Which of the following expenses are shown on the debit side of Profit and Loss Account ?
- (1) Freight Outwards
  - (2) Wages
  - (3) Sales
  - (4) Rent received

20. एक विनिमय-पत्र के \_\_\_\_\_ पक्षकार होते हैं ।

- |         |          |
|---------|----------|
| (1) दो  | (2) तीन  |
| (3) चार | (4) पाँच |

21. बहीखाते की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है एक

- (1) संपूर्ण रिकॉर्डों की प्रणाली
- (2) विश्वसनीय रिकॉर्डों की प्रणाली
- (3) सही वित्तीय स्थिति प्रदान करने की प्रणाली
- (4) उपर्युक्त सभी

22. एक विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त हुई दान की राशि मानी जाती है एक

- (1) पूँजीगत व्यय
- (2) आयगत व्यय
- (3) पूँजीगत प्राप्तियाँ
- (4) आयगत प्राप्तियाँ

23. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आय-व्यय खाता है ?

- (1) रामेश्वर का खाता
- (2) विक्रय खाता
- (3) मशीनरी खाता
- (4) बकाया किराया खाता

24. लेखाकरण का वह आधार जिसके अनुसार नकद एवं उधार दोनों प्रकार के लेनदेनों के लिए खाते तैयार किए जाते हैं, कहलाता है

- (1) रोकड़ आधार
- (2) उपार्जन आधार
- (3) मिश्रित आधार
- (4) दोहरा आधार

25. निम्नलिखित में से कौन-से व्यय लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं ?

- (1) जावक भाड़ा
- (2) मज़दूरी
- (3) विक्रय
- (4) प्राप्त हुआ किराया

- 26.** Accounts are divided into
- (1) Personal Accounts
  - (2) Real Accounts
  - (3) Nominal Accounts
  - (4) All of the above
- 27.** Debit means
- (1) An increase in asset
  - (2) An increase in liability
  - (3) A decrease in asset
  - (4) An increase in proprietor's equity
- 28.** The primary qualities that make accounting information useful for decision making are
- (1) Relevance and freedom from bias
  - (2) Reliability and comparability
  - (3) Comparability and consistency
  - (4) None of the above
- 29.** Use of common unit of measurement and common format of reporting promotes
- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (1) Comparability | (2) Understandability |
| (3) Relevance     | (4) Reliability       |
- 30.** Agreement of Trial Balance is affected by
- (1) One sided error only
  - (2) Two sided error only
  - (3) Both (1) and (2)
  - (4) None of the above
- 31.** Favourable bank balance means
- (1) Credit balance in Cash Book
  - (2) Credit balance in Passbook
  - (3) Debit balance in Cash Book
  - (4) Both (2) and (3)

**26.** खाते बाँटे जाते हैं

- (1) व्यक्तिगत खातों के रूप में
- (2) वास्तविक खातों के रूप में
- (3) आय-व्यय खातों के रूप में
- (4) उपर्युक्त सभी

**27.** डेबिट का अर्थ है

- (1) परिसंपत्ति में वृद्धि
- (2) देयता में वृद्धि
- (3) परिसंपत्ति में कमी
- (4) स्वामी के स्वत्व (ईक्विटी) में वृद्धि

**28.** वे मुख्य विशेषताएँ जो लेखांकन जानकारी को निर्णय लेने में सहायता करती हैं, वे हैं

- (1) सुसंगता एवं पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता
- (2) निर्भरता एवं तुलनात्मकता
- (3) तुलनात्मकता एवं संगता
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**29.** माप की समान इकाई का उपयोग तथा रिपोर्ट करने का समान रूप अभिवृद्धि करते हैं

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (1) तुलनात्मकता की | (2) समझने की       |
| (3) सुसंगता की     | (4) विश्वसनीयता की |

**30.** तलपट का मिलान प्रभावित होता है

- (1) केवल इकहरी अशुद्धि द्वारा
- (2) केवल दोहरी अशुद्धि द्वारा
- (3) (1) तथा (2) दोनों
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**31.** अनुकूल बैंक शेष से तात्पर्य है

- (1) रोकड़ बही में क्रेडिट शेष
- (2) पासबुक में क्रेडिट शेष
- (3) रोकड़ बही में डेबिट शेष
- (4) (2) तथा (3) दोनों

- 32.** When a firm maintains a Cash Book, it need not maintain
- (1) Journal Proper
  - (2) Purchase (Journal) Book
  - (3) Sales (Journal) Book
  - (4) Bank and Cash account in the Ledger
- 33.** Simple Cash Book records
- (1) All transactions
  - (2) Cash and Bank transactions
  - (3) Only cash transactions
  - (4) Only credit transactions
- 34.** The financial statements consist of
- (1) Trial Balance
  - (2) Profit and Loss Account
  - (3) Balance Sheet
  - (4) Both (2) and (3)
- 35.** If the insurance premium to be paid is ₹ 5,000 and prepaid insurance is ₹ 1,000, the amount of insurance premium shown in Profit and Loss Account will be
- |             |             |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 6,000 | (2) ₹ 1,000 |
| (3) ₹ 4,000 | (4) ₹ 5,000 |
- 36.** Incomplete records mechanism of book-keeping is
- (1) Scientific
  - (2) Unscientific
  - (3) Unsystematic
  - (4) Both (2) and (3)
- 37.** Deepak wants to buy a building for his business today. Which of the following is the relevant data for his decision ?
- (1) Similar business acquired the required building in 2005 for ₹ 10,00,000
  - (2) Building cost details of 2011
  - (3) Building cost details of 2003
  - (4) Similar building cost in August 2013 ₹ 25,00,000

- 32.** जब एक फर्म रोकड़ बही रखती है, तो इसे रखने की आवश्यकता नहीं होती
- (1) मुख्य जर्नल
  - (2) क्रय (जर्नल) बही
  - (3) विक्रय (जर्नल) बही
  - (4) खाता-बही में बैंक एवं रोकड़ खाते
- 33.** साधारण रोकड़ बही में रिकॉर्ड किए जाते हैं
- (1) सभी लेनदेन
  - (2) नकद एवं बैंक लेनदेन
  - (3) केवल नकद लेनदेन
  - (4) केवल उधार लेनदेन
- 34.** वित्तीय विवरणों में शामिल हैं
- (1) तलपट
  - (2) लाभ-हानि खाता
  - (3) तुलन-पत्र
  - (4) (2) व (3) दोनों
- 35.** यदि बीमा प्रीमियम की भुगतान की जाने वाली राशि ₹ 5,000 है तथा पूर्वदत्त बीमा की राशि ₹ 1,000 है, तो लाभ-हानि खाते में दिखायी जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि होगी
- |             |             |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 6,000 | (2) ₹ 1,000 |
| (3) ₹ 4,000 | (4) ₹ 5,000 |
- 36.** बहीखातों की अपूर्ण रिकॉर्ड विधि होती है
- (1) वैज्ञानिक
  - (2) अवैज्ञानिक
  - (3) अव्यवस्थित
  - (4) (2) व (3) दोनों
- 37.** दीपक आज अपने व्यवसाय के लिए एक भवन क्रय करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन-सा उसके निर्णयन के लिए सुसंगत है ?
- (1) समरूप व्यवसाय ने 2005 में आवश्यक भवन ₹ 10,00,000 में खरीदा था
  - (2) 2011 की भवन की लागत की राशि
  - (3) 2003 की भवन की लागत की राशि
  - (4) अगस्त 2013 में ऐसे ही भवन की लागत ₹ 25,00,000 थी

- 38.** If the insurance of one month is still to be paid, the adjustment entry will be
- (1) Debit outstanding insurance account and credit insurance account
  - (2) Debit profit and loss account and credit insurance account
  - (3) Debit insurance account and credit profit and loss account
  - (4) Debit insurance account and credit outstanding insurance account
- 39.** Choose the correct chronological order of ascertainment of the following profits from the Profit and Loss Account :
- (1) Operating Profit, Net Profit, Gross Profit
  - (2) Operating Profit, Gross Profit, Net Profit
  - (3) Gross Profit, Operating Profit, Net Profit
  - (4) Gross Profit, Net Profit, Operating Profit
- 40.** Which of the following is *not* an error of principle ?
- (1) Purchase of equipment debited to purchase account
  - (2) Repairs on the overhauling of second hand plant purchased, debited to repairs account
  - (3) Cash received from Mohini posted to Sohini
  - (4) Sale of old machinery credited to Sales account
- 41.** Wages of workmen employed for setting up new machinery should be debited to
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| (1) Expenses Account  | (2) Wages Account |
| (3) Machinery Account | (4) Cash Account  |
- 42.** Capital Account is classified as a
- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| (1) Real Account    | (2) Personal Account   |
| (3) Nominal Account | (4) Impersonal Account |
- 43.** Which account will be debited if Mohit commenced business with cash ?
- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| (1) Cash Account    | (2) Drawings Account   |
| (3) Capital Account | (4) Proprietor Account |
- 44.** The last step in accounting process is
- (1) Recording the transaction
  - (2) Communicating to the users
  - (3) Analyzing and Interpretation
  - (4) Preparing the source documents



38. यदि एक महीने के बीमे का अभी भी भुगतान किया जाना है, तो इसके लिए समायोजन प्रविष्टि होगी
- (1) अदत्त बीमा खाते को डेबिट करें तथा बीमा खाते को क्रेडिट करें
  - (2) लाभ-हानि खाते को डेबिट करें तथा बीमा खाते को क्रेडिट करें
  - (3) बीमा खाते को डेबिट करें तथा लाभ-हानि खाते को क्रेडिट करें
  - (4) बीमा खाते को डेबिट करें तथा अदत्त बीमा खाते को क्रेडिट करें
39. लाभ-हानि खाते से निम्नलिखित लाभों को ज्ञात करने के सही कालक्रम का चयन कीजिए :
- (1) प्रचालन लाभ, निवल लाभ, सकल लाभ
  - (2) प्रचालन लाभ, सकल लाभ, निवल लाभ
  - (3) सकल लाभ, प्रचालन लाभ, निवल लाभ
  - (4) सकल लाभ, निवल लाभ, प्रचालन लाभ
40. निम्नलिखित में से कौन-सी अशुद्धि एक सैद्धांतिक अशुद्धि *नहीं* है ?
- (1) उपस्कर का क्रय, क्रय खाते को डेबिट किया गया
  - (2) क्रय किए गए पुराने संयंत्र के जीर्णोद्धार के लिए की गई मरम्मत का व्यय मरम्मत खाते को डेबिट किया गया
  - (3) मोहिनी से प्राप्त हुई नकद राशि सोहिनी के खाते में दिखायी गयी
  - (4) पुरानी मशीन का विक्रय, विक्रय खाते को क्रेडिट किया गया
41. नयी मशीन लगाने के लिए नियुक्त किए गए श्रमिकों को दी गयी मज़दूरी डेबिट की जानी चाहिए
- (1) व्यय खाते को
  - (2) मज़दूरी खाते को
  - (3) मशीनरी खाते को
  - (4) रोकड़ खाते को
42. पूँजी खाता वर्गीकृत किया जाता है एक
- (1) वास्तविक खाते के रूप में
  - (2) व्यक्तिगत खाते के रूप में
  - (3) आय-व्यय खाते के रूप में
  - (4) अव्यक्तिगत खाते के रूप में
43. यदि मोहित ने नकद राशि द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया तो इसे किस खाते को डेबिट किया जाएगा ?
- (1) रोकड़ खाते को
  - (2) आहरण खाते को
  - (3) पूँजी खाते को
  - (4) स्वामी के खाते को
44. लेखाकरण प्रक्रिया में अंतिम सोपान है
- (1) लेनदेन को रिकॉर्ड करना
  - (2) उपयोगकर्ताओं को सूचित करना
  - (3) विश्लेषण तथा निर्वचन
  - (4) स्रोत प्रपत्र तैयार करना

- 45.** Discount for purchasing in large quantities is normally referred to as
- (1) Trade discount
  - (2) Prompt payment discount
  - (3) Cash discount
  - (4) Bulk discount
- 46.** The Standard format of Journal includes
- (1) Assets Column
  - (2) Liabilities Column
  - (3) Narration Column
  - (4) Ledger Folio Column
- 47.** A statement showing assets and liabilities of the business as at the end of an accounting year is called
- (1) Trial Balance
  - (2) Balance Sheet
  - (3) Ledger
  - (4) Journal Proper
- 48.** The other name of Journal is
- (1) Ledger Account
  - (2) T-shaped Account
  - (3) Day Book
  - (4) Cash Book
- 49.** Discount received is a kind of deduction from
- (1) Accounts Payable
  - (2) Accounts Receivable
  - (3) Cash Account
  - (4) Discount Account
- 50.** The process of recording transactions in different journals is called
- (1) Posting
  - (2) Entry making
  - (3) Adjusting
  - (4) Journalizing

45. बड़ी मात्रा में क्रय करने पर प्राप्त हुई छूट (कटौती) सामान्यतया कहलाती है
- (1) व्यापारिक छूट
  - (2) शीघ्र भुगतान छूट
  - (3) नकद छूट
  - (4) थोक छूट
46. जर्नल के मानक प्रारूप में शामिल है
- (1) परिसंपत्तियाँ कॉलम
  - (2) देयताएँ कॉलम
  - (3) व्याख्या कॉलम
  - (4) लेजर फोलियो कॉलम
47. वह विवरण जो एक लेखा वर्ष के अंत की व्यावसायिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शाता है, कहलाता है
- (1) तलपट
  - (2) तुलन-पत्र
  - (3) खाता-बही
  - (4) जर्नल विशेष
48. जर्नल का दूसरा नाम है
- (1) लेजर खाता
  - (2) T-शकल (आकृति) वाला खाता
  - (3) दैनिक बही
  - (4) रोकड़ बही
49. प्राप्त हुई कटौती है एक प्रकार की कमी करना
- (1) देय खाते में
  - (2) प्राप्य खाते में
  - (3) रोकड़ खाते में
  - (4) कटौती खाते में
50. विभिन्न जर्नलों में लेनदेनों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कहलाती है
- (1) खतौनी
  - (2) प्रविष्टि करना
  - (3) संशोधन करना
  - (4) जर्नल प्रविष्टि करना

# SPACE FOR ROUGH WORK

रफ़ कार्य के लिए जगह